



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - द्वितीय,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
Office of the Accountant General (A&E)-II,
Uttar Pradesh, Prayagraj



पत्रांक:-नि०वि०-2/03/अचल संपत्ति विवरणी/60875

दिनांक:- 15/01/2025

कार्यालय आदेश

मुख्यालय के पत्र संख्या-03-स्टाफ हकदारी (नियम)एन.आर./04-2015 दिनांक 06-01-2016 के साथ प्राप्त भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/7/2014 Estt. A-III दिनांक 05-01-2016 एवं केंद्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली-1964 के प्रावधानों के अनुसार "Every Government servant belonging to any service or holding any post included in Group 'A' and Group 'B' shall submit an annual return in such form as may be prescribed by the Government in this regard giving full particulars regarding the immovable property inherited by him or owned or acquired by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person".

अतः उक्त के अनुपालन में खंडीय लेखाकार/लेखाधिकारी संवर्ग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्ष -2024 से संबंधित अचल संपत्ति विवरणी, प्रावधानित प्रारूप (संलग्न) में 31 जनवरी 2025 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

Digitally signed by
Abhishek Kumar

Date: 15-01-2025 10:47:03

वरिष्ठ उच्च-महालेखाकार/डी०ए०सी०

पत्रांक:-नि०वि०-2/03/अचल संपत्ति विवरणी/60878, दिनांक:- 60880/60884

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार (ले०एवं ह०)द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय आदेश को इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
3. खंडीय लेखाकार/लेखाधिकारी संवर्ग के समस्त सदस्यों को इस कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त कार्यालय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

Digitally signed by

Pradeep Kumar Rawat

Date: 15-01-2025 12:19:23

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०वि०-2

FORM for DEPENDENTS
STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY RETURN FOR THE YEAR _____
AS ON _____

1. **Name of the officer (in full) :**
& Service to which the
officer belongs

2. **Present Post held**

Pay (Pay band & Level):

Date of Birth:

Name of District, Sub-Division Taluka and Village in which Property is situated	Land & Details of Property			If not is own name state in whose name held and his/her relationship to the Government Servant	How acquired whether by purchase, lease**, mortgage, inheritance gift or otherwise with date of acquisition and name with details of person/persons from whom acquired	Annual Income from property	Remarks; Please indicate details of permission obtained from department
	Housing	Land	Present Value*				
1	2	3	4	5	6	7	8

Place :

Date:

Signature of Govt. Servant

Struck out which is not applicable.

* In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate given value in relation to present condition may please be indicated.

** Includes short term lease also.

FORM for SELF
STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY RETURN FOR THE YEAR _____
AS ON _____

1. **Name of the officer (in full) :**
& Service to which the officer belongs
2. **Present Post held**

Pay (Pay band & Level):

Date of Birth:

Name of District, Sub-Division Taluka and Village in which Property is situated	Land & Details of Property			If not is own name state in whose name held and his/her relationship to the Government Servant	How acquired whether by purchase, lease**, mortgage, inheritance gift or otherwise with date of acquisition and name with details of person/persons from whom acquired	Annual Income from property	Remarks; Please indicate details of permission obtained from department
	Housing	Land	Present Value *				
1	2	3	4	5	6	7	8

Place :

Signature of Govt. Servant

Date:

Struck out which is not applicable.

* *In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate given value in relation to present condition may please be indicated.*

** *Includes short term lease also.*